

तुरंत रिलीज के लिए

इस वर्ष ब्रैम्पटन में सुरक्षित रूप से हैलोवीन मनाएं!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (20 अक्टूबर, 2020) – इस वर्ष, कोविड-19 (COVID-19) के कारण ब्रैम्पटन में हैलोवीन (Halloween) अलग ढंग से मनाया जा रहा है। जैसे कि निवासी अपनी सजावटी वस्तुओं को टांगने और घर में अपना डरावना हैलोवीन मनाने की योजना बना रहे हैं, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इस वर्ष के जशनों का सुरक्षित रूप से आनंद लेने हेतु, निवासियों के लिए कई तरीके पेश कर रही है।

ब्रैम्पटन में ट्रिक ऑर ट्रीटिंग

प्रांत और पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के निर्देश का पालन करते हुए, संशोधित स्टेज 2 में, पील रीजन (Peel Region) और ब्रैम्पटन सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट रीजनों में, घर-घर जाकर पारंपरिक ट्रिक ऑर ट्रीटिंग (भूतिया पोशाक पहनकर घर-घर जाकर कैंडीज मांगना) की सलाह नहीं दी जा रही है। लोगों को जशन मनाने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना चाहिए। इनमें शामिल हो सकते हैं:

- बच्चों को पार्टी वाले कपड़े पहनकर, आभासी (वर्चुअल) गतिविधियों और पार्टियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- घर में कद्दू सजाना
- मूवी नाइट का आयोजन करना या डरावनी कहानियां सुनाना
- आगे के लॉन को सजाना

हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, इस वर्ष ऑनलाइन जशन मनाने हेतु, परिवारों के लिए कई प्रकार के मज़ेदार और मुफ्त हैलोवीन कार्यक्रम आयोजित कर रही है!

कद्दू सजाने की प्रतियोगिता

अपने अंदर भूतों वाला जोश भरें और कद्दू सजाने के अपने कौशल दिखाएं। 16 और 29 अक्टूबर के बीच अपने सजाए हुए कद्दू की फोटो जमा करें, ताकि आप तैराकी, स्केटिंग या फिटनेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation) पास के 50 जोड़ों में से एक जीत सकें! पूरे विवरण www.brampton.ca/recreation पर हैं।

मुफ्त मोन्स्टर मैश गतिविधि किटें

घर में की जाने वाली हैलोवीन पार्टी के साथ रचनात्मक बनें! रेडिमेड सामान की किट का प्रयोग करते हुए अपना खुद का दैत्य बनाएं और कदम-दर-कदम ऑनलाइन ट्यूटोरियल का अनुसरण करें। 19 अक्टूबर से शुरू करते हुए, मुफ्त गतिविधि किटें लेने के लिए उपलब्ध हैं। पूरे विवरण www.brampton.ca/recreation पर हैं।

क्राफ्टीएस्ट कॉस्ट्यूम (शिल्पकारी वाली पोशाक) की प्रतियोगिता

इस हैलोवीन, क्राफ्टी (शिल्पकार) बनें और सिटी की सबसे बढ़िया हैलोवीन पोशाक बनाएं! सिटी, 10 वर्ष और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए, सबसे बढ़िया तीन पोशाकों के लिए इनाम देगी। साथ ही, हिस्सा लेने वाले हर बच्चे के लिए खास स्क़ॉल और गिफ्ट पेश करेगी।

जजों के हमारे पैनल में शामिल हैं, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), सिटी काउंसलर डग विलैन्स (Doug Whillans), रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस (Rowena Santos), पील रीजनल पुलिस सुपरडेंट नैव शिन्ज़र (Nav Chhinzer), पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ट्रस्टी कैथी मैकडॉनल्ड (Kathy McDonald) और सिटी के एक्टिंग कमिश्नर ऑफ कम्युनिटी सर्विसिज डेरेक बोएस (Derek Boyce)।

ब्रैम्पटन के लोकल ट्रीट विक्रेताओं से कुछ शानदार इनाम जीतने के अवसर के लिए, 31 अक्टूबर और 6 नवंबर के बीच, #BramptonCraftiestCostume2020 का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी पोशाक साझा करके हिस्सा लें!

विजेताओं के साथ सीधे तौर पर संपर्क किया जाएगा और सिटी के सोशल मीडिया चैनलों पर घोषणा की जाएगी।

ग्रेट पम्पकिन पार्टी और सोशल मीडिया प्रतियोगिता

इस वर्ष, ग्रेट पम्पकिन पार्टी (Great Pumpkin Party) आभासी तौर पर हो रही है। कद्दू सजाने वाले पेशेवर कलाकारों, रिक जैकबसन (Rick Jacobson) और रॉय किशोल्म (Roy Chisholm) को गढ़ी हुई और 3D जैक-ओ'-लैंटर्नस (कद्दुओं की लालटेनें) (3D Jack-o'-Lanterns) बनाते हुए देखें! सुझाव और तरीके सीखें और कद्दू सजाने की प्रतियोगिता (Pumpkin Decorating Contest) में अपनी कलाकारी को शामिल करना सुनिश्चित करें।

हैलोवीन के बाद, एक अंतिम बार अपनी पोशाक पहनें और अपने कद्दुओं को कम्पोस्ट करते हुए एक तस्वीर लें। [यहां \(here\)](#) देखें कि आपके कद्दुओं को कम्पोस्ट कैसे करना है। कुछ शानदार इनाम जीतने के अवसर के लिए, 1 और 6 नवंबर के बीच, #BramptonHalloween2020 का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर साझा करें!

पिछले वर्षों के दौरान, सिटी ने निवासियों से कहा कि वे ग्रेट पम्पकिन पार्टी में खराब न होने वाली भोजन आइटम लेकर आएंगे। इस वर्ष लोकल फूड बैंकों को, पहले से भी कहीं अधिक मदद की जरूरत है। कृपया लोकल फूड बैंकों में कोई भी संभव राशि दान करने पर विचार करें।

हवाले

“प्रांत के, ट्रिक ऑर ट्रीटिंग के लिए सलाह वाले फैसले को देखते हुए, सिटी इस वर्ष ब्रैम्पटन में हैलोवीन का जश्न मनाने के लिए कई कदम उठा रही है। मैं हर किसी को मजेदार गतिविधियों का आनंद लेने की सलाह देता हूं, जो हम पेश कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं, शिल्पकारी वाली पोशाक की प्रतियोगिता, कद्दू सजाना और ग्रेट पम्पकिन पार्टी।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस हैलोवीन, अपने समुदाय के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती को सबसे पहले प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें और अपने प्रियजनों के साथ, घर में ही सुरक्षित रूप से जश्न मनाएं। हम आपके परिवार के लिए आनंद लेने हेतु, कई रोमांचक, सुरक्षित गतिविधियां पेश कर रहे हैं। कुछ शानदार इनाम जीतने के अवसर के लिए हमारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा जरूर लें!”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस वर्ष हम हैलोवीन का जश्न ऑनलाइन मना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी तरह से कम जुड़े हुए हैं। भूतिया पोशाक पहनें, हमारी ऑनलाइन गतिविधियां देखें और #BramptonCraftiestCostume2020 का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी पोशाक साझा करना न भूलें, यह 10 वर्ष और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए है। साथ ही, जब आप पोशाक पहने हुए ही अपने कददुओं में खाद डालें तो #BramptonHalloween2020 का प्रयोग करते हुए इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा करें!”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, वाइस-चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“इस वर्ष पूरे ब्रैम्पटन में हैलोवीन का जश्न मनाने के लिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पील पब्लिक हेल्थ के सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, घर में रहकर जश्न मनाना सुनिश्चित करें। कददू सजाएं, मोन्स्टर मैश गतिविधि किट प्राप्त करें और इस दिन का मज़ा लें!”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca